

केन्द्रीय विद्यालय उत्तर लखीमपुर (असम)

ग्रीष्मकालीन गृहकार्य

सत्र - 2018-19

कक्षा :- 6

विषय :- हिन्दी

प्रश्न -1 हिन्दी की निम्न कविता को लिखिए तथा अर्थ सहित याद कीजिए ?

(i) वह चिड़िया जो ।

प्रश्न -2 अपने मन पसंद की कोई एक कविता लिखें ?

प्रश्न -3 हिन्दी के निम्न पाठों के प्रश्न- उत्तर याद करने हैं ? ।

(i) वह चिड़िया जो (ii) बचपन (iii) अवधपुरी में राम

प्रश्न -4 निम्न मे से किसी एक विषय पर निबंध लिखे ? (लगभग -150 शब्द )

(1) मेरे जीवन क लक्ष्य ।

(2) कंप्यूटर क महत्व ।

प्रश्न 5 - हिन्दी प्रायोजना कार्य :- हिन्दी के किन्ही 2 प्रेरक प्रसंगों का संग्रह करना ।

व्याकरण

प्रश्न -1 विशेषण की परिभाषा लिखना और याद करना ।(उदाहरण सहित )

प्रश्न -2 संज्ञा किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं (परिभाषा सहित उदाहरण लिखें )

SUBJECT: ENGLISH

Q1. Make a list of fifty words with their Synonyms and Antonyms.

Q2. Make a list of eighty Verbs and write their three forms.

Q3. Make a list of fifty Adjectives and their Degrees of Comparison.

Q4. Make a list of fifty collective noun.

Q5. Make a list of thirty new words and write their dictionary meaning.

Q6. Write a paragraph on each of the following in about 150-200 words.

(a) My School

(b) My Aim in Life

(c) Importance of Games and Sports in Our Life

(d) Trees: Our Friend

(e) An Inspiring Personality

## SUB: MATHS

### 1) Fill in the blanks:

- a) Mathematics is the study of .....
- b) 1, 2, 3, 4,..... numbers are known as .....
- c) 0, 1, 2, 3, 4..... Numbers are known as .....
- d) Seventy three crore five lakhs thirty nine thousand four hundred fifty :  
.....(Write in numerals.)
- e) The successor and predecessor of 1 is .....and..... respectively.

### 2) State true or false:

- i) Zero is the smallest whole number.
- ii) All natural numbers are whole numbers.
- iii) Division by zero is not defined.
- iv) -6 is the opposite of 6.
- v) The whole number 0 has no predecessor.

### 3) Expand (Using brackets):

- a)  $105 \times 108$ .
- b)  $99 \times 109$ .
- c)  $88 \times 93$ .
- d)  $49 \times 67$ .
- e)  $56 \times 87$ .

### 4) Represent $14+6$ on the number line.

### 5) Represent $12 \times 3$ , $10 \times 6$ , $4 \times 3$ , $3 \times 8$ on the number line.

### 6) Using waste materials make any five mathematical models. You can use straws, toothpaste, boxes etc.

## Subject: Science

### 1. Prepare model of-

- a. Water cycle
- b. Pendulum
- c. Pin hole camera
- d. Kaleidoscope
- e. Periscope
- f. Wind mill

### 2. Make a simple electric circuit and testing conductivity of different materials using a simple electric circuit.

### 3. Labeled diagram of parts of plant

### 4. Labeled diagram of parts of leaf

### 5. Labeled diagram of parts of flower

### 6. Prepare a chart on different methods of separation.

### 7. Labeled diagram of human skeletal

---

## SST

**Answer all these questions in separate note book.**

1. Learn and write the exercise of chapter one of History.
2. Complete the exercise of the chapter “understanding diversity”.
3. Learn and write the exercise of chapter “diversity and discrimination”
4. Learn and write the exercise of chapter “The Earth in the solar system”

## SANSKRIT

शबदरूप लिखत = बालक,बालिका, नदी,मुनि

धातुरूप लिखत = पठ,गम=लट,लृट,लंग